

बलिया दर्शन



VOLUME 38

01/MAR/2020 TO
31/MAR/2020

ई-पत्रिका



E NEWSLETTER 1



श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा
(अधिशाषी अधिकारी)

श्री अजय कुमार
(अध्यक्ष)



नगर पालिका परिषद, बलिया मार्च 2020 के ई-पत्रिका बलिया दर्पण में स्वागत है। मार्च माह में हुये विकास कार्यों को ई-पत्रिका बलिया दर्पण के माध्यम से आपसब तक पहुँचाना चाहते हैं बलिया नगर पालिका प्रत्येक माह ई-पत्रिका बलिया दर्पण के द्वारा नगर पालिका में हुये विकास कार्यों को आपसब के सामने लाने का प्रयास करता है। जिससे बलिया नगर पालिका परिषद के विकास और नई योजनाओं से लाभान्वित हो सके। नगर पालिका परिषद बलिया का एक मात्र उद्देश्य नगर पालिका का विकास है। जिसमे बिना किसी भेद-भाव, सभी समुदायों के लोगो को एकसाथ लेकर आगे बढ़ने का उद्देश्य है। जिसके लिए नगर पालिका परिषद के निवासियों को इसमें सहयोग महत्वपूर्ण है। और नगर पालिका इसका उम्मीद करता है। नगरवासियों से अपील है की नगर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने में नगर पालिका की मदद करे। अपने आस-पास साफ-सुथरा रखे। कूड़ा-कचरा डस्टबिन में रखे, गन्दगी न फैलाये। आने वाले कल अच्छा हो इसके लिये आज बेहतर बनायें।



Mr. Dinesh kumar Visvakarma
(Executive Officer)



I am happy to present the March 2020 issue to all of you. A number of projects have been commissioned in the month of March. The former will help smoothen the flow of traffic, reduce the travel time of citizens, ease the congestion and reduce pollution on nagar road. There have been a lot of lessons to learned and these insights will certainly stand in good stead with us in our endeavors in future. The one thing that stands out is the most active participation of citizens. We, the residence of the Nagar Palika Parishad Ballia respective of ages, castes, creeds, religions, localities have untidily participated in creation of Ballia Swachh Nagar Palika Parishad proposal. As I look into the future with great expectation, it is this one aspect of the municipality which gives me the greatest hope. We in the Nagar Palika Parishad Ballia, would be very happy to receive your feedbacks on all matters that you feel are important.



Nagar Palika Parishad Ballia

I am delighted to present the tasks and issue of Ballia Nagar Palika by E-Patrika Ballia in March 2020. Nagar Palika Parishad Ballia is grateful to the citizens who displayed tremendous enthusiasm and whole heartedly participated in numerous activities throughout this period. All of us should bear in mind that this is not end but a beginning of the exercise pertaining to development and Swachh Mission program. The coming years will surely be very hectic and eventful. Ballia promises to leave no room for complacency and will work even harder to achieve the targets. We solicit active participation from the citizens in our endeavor. We sincerely believe that decisions taken by Nagar Palika Parishad Ballia should benefit Nagar Palika Parishad Ballia and the citizens in the ultimate analysis. Many projects process in work in Nagar Palika Parishad Ballia for development our Nagar Palika and citizens. Thanks to all citizens of Nagar Palika Parishad Ballia for supporting to develop Ballia.



होली की सुभकामनाएं

10/ Mar/2020

राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी
प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी
यह रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली
मुबारक हो आपको रंगों भारी होली

इस से पहले होली की शाम हो जाए,
बधाइयों का सिलसिला आम हो जाए,
भीड़ में शामिल हमारा नाम हो जाए
क्यू ना होली की अभी से राम राम हो जाए

होली की खुब सारी शुभकामनाये....





Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

नौवल कोरोनावायरस (COVID 19)



अगर आप स्वस्थ हैं

तो आपको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है

मास्क केवल उन्हीं को पहनना चाहिए जो अस्वस्थ हैं या जिन्हें



खांसी
हो



बुखार
हो



सांस लेने में
कठिनाई हो



अगर आपमें इनमें से कोई भी लक्षण हैं, तो कृपया राज्य की हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन नं. 011-23978046 पर कॉल करें

स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी के लिए:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 24x7 हेल्पलाइन नं. +91-11-23978046 पर सम्पर्क करें
ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in

[@MoHFWIndia](https://www.facebook.com/MoHFWIndia)

[@MoHFW_INDIA](https://twitter.com/MoHFW_INDIA)

[mohfwindia](https://www.youtube.com/channel/UCmohfwindia)

रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है
कुछ आवश्यक कदम स्वस्थ बनने के लिए

खुद को सुरक्षित रखने के उपाय

- हाथ को साफ़ रखें
- दूरी बनाएँ
- खाने में सावधानी

दूसरों को सुरक्षित रखने के उपाय

- घर पर रहें
- खाने में सावधानी
- खाने के समय मास्क पहनें
- संक्रमित लोगों से दूरी बनाएँ
- संक्रमित लोगों से दूरी बनाएँ

अधिक जानकारियों के लिए:
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के टोल फ्री नं० 104
अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के टोल फ्री नं० +91-11-23978046 पर वीबीसी चैट सम्पर्क कर सकते हैं।

कोरोना वायरस से हम मिलकर लड़ सकते हैं

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित —

क्या करें ✓ क्या करें और क्या ना करें



बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें



छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिश्यू/स्माल से ढकें



प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें



अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें



अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें



भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें



यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आएं



अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें



सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

क्या न करें ✗

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं.
+91-11-2397 8046 पर कॉल करें या
ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं ये सरल उपाय अपनाएं



1
नियमित रूप से साबुन
और पानी से हाथ धोएं



2
खाँसते या छींकते समय नाक
और मुँह टिश्यू या कोहनी से ढकें



3
जिस व्यक्ति में खाँसी, जुकाम या
बुखार के लक्षण हों उससे दूरी बनाएं



अगर खाँसी, बुखार या साँस
लेने में परेशानी हो तो तुरंत
डॉक्टर से संपर्क करें

सुरक्षित
रहें!

कोरोना वायरस
से बचे रहें!

यदि आप पिछले 15 जनवरी के बाद बुहान-धीन से लौटे हैं, तो अपने आप को 2019-nCoV के लिए टेस्ट जरूर करवाएं। टेस्ट करवाने के स्थान की जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के हेल्प लाइन पर कॉल करें :

यदि आप पिछले 15 दिनों में धीन से लौटे हैं, या कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो अगले 14 दिनों के लिए सब के साथ संपर्क सीमित करें और अलग कमरे में सोयें।

धीन से लौटने के बाद 28 दिन के भीतर, अगर आपको बुखार, खाँसी या साँस लेने में तकलीफ जैसी कोई भी समस्या हो, तो तुरंत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें :

24x7 +91-11-23978046

SWACHH SURVEKSHAN

4th - 31st January 2020

There are two types of people:



Download the **#VoteForYourCity**
App and help your city win



Assessment agency for
Swachh Survekshan Urban 2020

SWACHH SURVEKSHAN

4th - 31st January 2020

SWACHHATA HEROES

LET'S HAIL OUR HEROES!

Tell us about your **Swachhata Heroes**,
and we will share their stories here.



Assessment agency for
Swachh Survekshan Urban 2020



स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

जब होगी हर डगर, हर गली साफ |
तो ही पूरी होगी स्वच्छ भारत की आस ||

हर गाँव हर शहर होगा जब साफ |
तभी हो पाएगा देश का सही विकास ||

स्वच्छ भारत अभियान है एक आस |
ताकि हो भारत देश का सम्पूर्ण विकास ||

स्वच्छता ही है एक मात्र उपाए |
जो सभी को हमेशा स्वस्थ बनाए ||

स्वच्छता है महा अभियान |
स्वच्छता मे दीजिए अपना योगदान ||

हाथ से हाथ मिलाना है
गंदगी नहीं फैलाना है
स्वच्छता को अपनाना है

स्वच्छ भारत मिशन बलिया

श्री दिनेश कुमार विस्वकर्मा
(अधिशाषी अधिकारी)

श्री अजय कुमार
(अध्यक्ष)

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756